

नकली शराब बनाने का जखीरा पकड़ा: अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई, विभिन्न ब्रांड की बोतल, ढक्कन बरामद, एक गिरफ्तार सिरोही



पुलिस गिरफ्त में आरोपी और शराब बनाने का सामान।

आबकारी विभाग ने नकली शराब बनाने का जखीरा पकड़ा है। टीम ने विभिन्न ब्रांड की बोतल, ढक्कन, हॉट एयर गन के अलावा कई सामान बरामद किया गया।

आबकारी आयुक्त, उदयपुर डॉ. जोगाराम के निर्देशन में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जिला आबकारी अधिकारी योगेश श्रीवास्तव ने बताया कि रेवदर क्षेत्र में पुलिस चौकी भटाना से आगे गुजरात रोड पर एक प्लॉट पर बने कमरे पर नकली शराब बनाने की सूचना मिली थी। इसके बाद शम्भू सिंह आबकारी निरीक्षक वृत्त रेवदर ने छापामार कार्रवाई की। मौके से गोपाल सिंह पुत्र नीम्ब सिंह राजपुत निवासी बाडमेर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी किराए के मकान के एक कमरे में नकली शराब बनाने का काम करता था। नकली शराब को बोटलिंग पैकिंग करने की सामग्री का काफी मात्रा में सामान बरामद किया गया है।

विभिन्न ब्रांड के बोतल पैकिंग का सामान मिला

टीम ने प्लास्टिक जरीकेन में भरी 16 लीटर राजस्थान निर्मित मदिरा, मैकडॉल व्हीस्की नं. 1 के अपूर्ण पैक किए 14 भरे हुए पच्चे, ब्लेण्डर्स व्हीस्की की 33 खाली बोतल व इम्पिरियल ब्ल्यू व्हीस्की की 3 खाली बोतल बरामद हुई। इसके अलावा विभिन्न ब्राण्ड के ढक्कनों में आर.एस.जी.एस.एम. मार्का युक्त 1070 ढक्कन, ऑफिसर चॉईस व्हीस्की मार्का युक्त 550 ढक्कन, मैकडॉल व्हीस्की नं. 1 मार्का युक्त 73 ढक्कन, रॉयल स्टेज मार्का युक्त 34 ढक्कन, कंट्रीक्लब मार्का युक्त 24 ढक्कन, ब्लेण्डर्स मार्का युक्त 19 ढक्कन तथा विभिन्न ब्राण्ड के कैप बरामद हुए जिसमें रॉयल स्टेज मार्का युक्त 37 कैप, इम्पिरियल ब्ल्यू सीग्राम मार्का युक्त 58 कैप की बरामदगी हुई।

लेबलों को पैकिंग करने की एक हॉट एयर गन भी बरामद

इसी प्रकार विभिन्न ब्रांड के बोतल पैकिंग के लिए कागज बॉक्स में मैकडॉल व्हीस्की नं. 01 मार्का युक्त 65 बॉक्स, ऑल सीजन व्हीस्की मार्का युक्त 15 बॉक्स, रेड लेबल मार्का युक्त 10 बॉक्स, इम्पिरियल ब्ल्यू मार्का युक्त 08 बॉक्स प्राप्त हुए व श्री करणी वाईन मार्का युक्त विभिन्न रंगों के 40000 लेबल प्राप्त हुए। उक्त लेबलों को पैकिंग करने की एक हॉट एयर गन भी बरामद हुई। मामले में आबकारी विभाग की जांच जारी है। आबकारी अधिकारी ने दावा किया है कि मामले में नकली शराब बोटलिंग कर निर्यात व निर्माण की पूरी चैन का शीघ्र खुलासा किया जाएगा।

Source : <https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/pali/sirohi/news/excise-departments-action-against-illegal-liquor-bottle-of-different-brand-lid-recovered-one-arrested-129119883.html>